

## नागरिक विशेषाधिकार / सिटिज़न्स चार्टर

v̄l i fjdYi uk , oa /; § oDr0;

### परिकल्पना

वर्तमान व्यवसाय के विस्तारण से एवं नये क्षेत्रों में प्रवेश के जरिए कंपनी के संचालनीय क्षितिज को बढ़ाना, ताकि ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकें एवं साथ ही संस्थान को विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जा सके।

### ध्येय

लौह एवं इस्पात उत्पादन एवं अन्य निर्माण कार्यों में निकसित व्यर्थ पदार्थों से अधिकाधिक रिक्वरी करते हुए “व्यर्थ से अर्थ” उपार्जित करना ही एफएसएनएल का ध्येय है।

उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल का उत्पादन कर इस्पात एवं संबंधित उद्योग जगत को प्रदान करना।

c̄l lFkku }kj k | a kfnr dkj kckj dk fooj .k

इस्पात उद्योग में मुख्यतः दो प्रकार के स्कैप होते हैं:-

प्राथमिक स्कैप:-

प्राथमिक स्कैप अपेक्षाकृत शुद्ध एवं तकरीबन स्लैग से मुक्त होते हैं, जैसे मिल रिजेक्ट्स, टन्डिश स्कल, लैडल स्कल इत्यादि।

द्वितीयक / अनुपूर्वक स्कैप:-

द्वितीयक स्कैप में, स्लैग, अवशेष, मलबे, रिफैक्टरी जैसी अशुद्धियां सम्मिश्रित होती हैं।

एफएसएनएल द्वारा इस्पात उद्योगों को एक व्यापक स्तर पर सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिनमें निम्न सेवाएं भी शामिल हैं:-

### स्लैग हैंडलिंग

- पिट खुदाई
- वर्कड थू स्लैग की ढुलाई
- एलडी/ईएफ स्लैग की कशिंग, ग्राईडिंग व स्कीनिंग

## धात्विक पुनर्प्राप्ति

ओपन हार्थ ग्रेड स्कैपों / एसएमएस ग्रेड स्कैपों की पुनर्प्राप्ति  
पुनर्निर्मित पिट स्कैप  
ब्लास्ट फर्नेस फाइन्स  
सिंटर प्लांट फाइन्स

## कशिंग के साथ एवं कशिंग के बिना स्क्रीनिंग

1. मिल स्केल (एलडी स्लैग)
2. कोक
3. ब्लास्ट फर्नेस अधिभार तथा वाणिज्यिक विक्रय हेतु स्लैग
4. अयर्स्क
5. सिंटर

## विविध मिल सेवाएं

1. गर्म धातु की कूलिंग एवं प्रक्रमण
2. सांचा(मोल्ड) को तोड़ना
3. स्पिल्स एवं स्कल्स को तोड़ना
4. स्कैप की कटाई
5. धात्विक बटनों का लान्सिंग एवं / अथवा तोड़ना
6. कच्चे माल का संग्रहण एवं डी-स्टाकिंग
7. रेल कार सहित विभिन्न क्लीन-अप स्कैपों की कटिंग
8. फ्लू-डस्ट, प्रेसिपिटेटर डस्ट एवं स्लड्ज की ढुलाई एवं डिस्पोजिंग
9. मिल रोलों की लान्सिंग एवं / अथवा ब्रेकिंग
- 10.रेल कार की सफाई
- 11.सांचा(मोल्ड) की स्टाकिंग एवं डी-स्टाकिंग
- 12.स्लैबों की स्कार्फिंग

स्कैप रिकवरी हेतु एफएसएनएल द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है:-

## मानवीय प्रक्रिया

मानवीय प्रक्रिया में स्कैपों का बिनना, विशाल टुकड़ों की छिसलिंग, मानवीय छंटाई, आकारण(साईर्जिंग) एवं लोडिंग शामिल हैं।

## अद्वैतिकीय पद्धति

स्कैप के आकारों के आधार पर, हाथ से अथवा चलित क्रेन या शॉवेल के जरिए पिकिंग एवं लोडिंग संचालन संपन्न किया जाता है।

## यांत्रिकीय पद्धति

इस पद्धति में ड्रैगलाईन केन, हाईड्रालिक एक्स्कवेटर, चलित एवं स्थैतिक मैग्नेटिक सेपरेटर, कशिंग एवं स्कीनिंग प्लांट, एफई-एनरिचमेंट प्लांट, बुलडोज़र, फर्ट एण्ड लोडर, डम्पर इत्यादि का प्रयोग शामिल है।

किसी भी इस्पात संयंत्र में स्कैप निकासी की मात्रा उसके द्वारा प्रयुक्त प्रकमण तकनीक एवं उसके द्वारा उत्पादित इस्पात की मात्रा के अनुसार परिवर्तित होती है।

ऐसे स्कैपों को ही एफएसएनएल द्वारा अभिज्ञात किया जाता है एवं उन्हें प्राप्त कर प्रकमण के पश्चात सिंटर प्लांट, ब्लास्ट फर्नेस एवं स्टील मेलिंग शॉप में पुनः उपयोग हेतु प्रेषित किया जाता है।

यह प्रमाणित किया गया है कि इस्पात उत्पादन में फेरस स्कैप के उपयोग से ऊर्जा एवं प्राकृतिक संसाधनों की काफी अधिक मात्रा में बचत होने के साथ-साथ इस्पात संयंत्रों के द्वारा ताजी डम्पिंग हेतु जगह भी मिल जाती है।

## I ½xlgdks dk fooj .k

क्रम	स्थान	संयंत्र	प्रारम्भ हुआ
1.	राउरकेला	सेल(SAIL)-राउरकेला इस्पात संयंत्र	1962
2.	बर्नपुर	सेल—आईएसपी	1964
3.	भिलाई	सेल(SAIL)-भिलाई इस्पात संयंत्र	1983
4.	बोकारो	सेल(SAIL)-बोकारो स्टील लिमिटेड	1984
5.	विशाखापट्टणम	आरआईएनएल—विशाखापट्टणम इस्पात संयंत्र	1990
6.	दुर्गापुर	सेल(SAIL)—दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	1991
7.	डुबुरी	नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड(एनआईएनएल)	2002
8.	हरिद्वार	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड(बीएचईएल)	2011
9.	बंगलूरु	रेल व्हील फैक्ट्री (आरडब्ल्यूएफ)	2012
10.	भद्रावती	सेल(SAIL)—विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लि.	2015
11.	सेलम	सेल(SAIL)—सेलम इस्पात संयंत्र	2015
12.	मुंबई	एयर इण्डिया	2016

## n½R; d ukgfjd@xlgd dkis inku fd, tkus okyh I okvks dk fooj .k

- संयंत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न परिमाण के स्टील स्कैपों की निकासी, प्रकमण एवं ढुलाई।

2. बीएफ फाईन्स का प्रकरण एवं वैगन/ट्रक पर लोडिंग
3. इस्पात स्कैप की निकासी, प्रकरण एवं लोडिंग
4. मिल स्केल की स्कीनिंग एवं लोडिंग
5. वेरर स्कैप/स्ट्रक्चरल/कम्बल्ड एचआर शीट एवं प्लेट/हाई सिलिकॉन सेमी रोल्ड प्लेट की अनलोडिंग, प्रकरण तथा एसएमएस स्कैप यार्ड में इनके प्रेषण हेतु लोडिंग एवं ढुलाई।
6. प्रकमित स्कैप का एसएसब्हाई को ढुलाई।
7. एसएमएस-2 से टनडिश स्कल का वे-ब्रिज के जरिए एसएमएस-2 स्कैपयार्ड को ढुलाई।
8. एसएमएस-2 से टनडिश-बे से टनडिश स्कल का वे-ब्रिज के जरिए एसएसडी लान्सिंग यार्ड को ढुलाई।
9. 0–5 एमएम, 5–20 एमएम, 20–40 / 50 एमएम, 40–65 एमएम परिमाण के एलडी स्लैग की स्कीनिंग एवं कशिंग।
10. वर्कड—थू स्लैग की लोडिंग एवं ढुलाई
11. बीओएफ स्लैग की डिगिंग एवं ढुलाई
12. एलडी स्लैग की ढुलाई
13. बेलेबल मटेरियल की लोडिंग एवं ढुलाई
14. बीएफ स्लैग पिट की डिगिंग
15. एसएमएस को प्रकमित स्कैप की ढुलाई
16. इन्गाट मोल्ड एवं बॉटम स्टूल्स का प्रकरण
17. इस्पात लैडल स्कल का प्रकरण
18. लौह स्कैप का प्रकरण एवं लोडिंग

19. सी.आई रनर स्कैप हैन्डलिंग
20. स्टिकर इनाट्स की रिलीसिंग
21. इनाट बट्स का प्रकमण
22. लान्सिंग एवं बालिंग के जरिए थिंबल स्कल का प्रकमण
23. शाट प्लेट जैम्स का प्रकमण
24. लौह एवं इस्पात जोन से कंपनी के संचालन साईट तक स्कैप की लोडिंग एवं ढुलाई
25. मिल एवं कटिंग की हैन्डलिंग
26. बीएफ फाईन्स की ढुलाई
27. इनाट, लैडल स्कल, पिट जैम्स की अनलोडिंग व प्रकमण तथा वैगनों पर री-लोडिंग
28. स्लैब/ब्लूम्स की गैस-कटिंग
29. कोबल्स/रिजेक्टेड रेल्स, ब्लूम्स एण्ड बिलट्स की आरएसएम व बीबीएम में गैसकटिंग एवं थलमार्ग से एसएमएस-2 को प्रेषण।
30. आरएसएम के कोबल यार्ड में रिजेक्टेड रेल्स की गैसकटिंग एवं डिस्पोज़िल स्टोर्स को प्रेषण।
31. एसबीएस में स्लैब की स्कार्फिंग
32. पिग आयरन की अनलोडिंग
33. पिग आयरन की लोडिंग
34. किसी भी शॉप से अप्रकमित स्लैग की लोडिंग एवं प्रोसेसिंग यार्ड तक ढुलाई
35. इनाट/स्लैब/ब्लूम्स की अनलोडिंग
36. इनाट/स्लैब/ब्लूम्स की लोडिंग

37. रेल्स की अनलोडिंग, स्टैकिंग व सोर्टिंग
38. वैगन/ट्रक पर रेल्स की लोडिंग, स्टैकिंग एवं एडजस्टमेंट
39. एसिड स्लज की हैन्डलिंग, उदासीकरण एवं डिस्पोसल
40. हल्के स्कैप, जैसे पतले रॉड, जीआई शीट्स, ड्रम, हल्की प्लेट आदि की अनलोडिंग/बेलिंग मशीन के जरिए बेलिंग/लोडिंग व थलमार्ग से ढुलाई।
41. विभिन्न वर्ग में दोषूर्ण/अस्वीकृत ब्रिक्स की सोर्टिंग, रेकवरी एवं ढुलाई
42. कोक ओवन से कोक ब्रीज की ढुलाई एवं अनलोडिंग
43. सिंटर प्लांट को मिल स्केल की ढुलाई
44. +5–20 एमएम इस्पात स्कैप में एफई कंटेंट का एनरिचमेंट
45. ब्लास्ट फर्नेस के आपातकालीन कोक यार्ड में हार्ड कोक शिफटिंग
46. एसएमएस स्लैग यार्ड से स्लैग डिस्पोसल
47. कोल्ड रोलिंग मिल्स से स्कैप, सेकन्ड्रीस एवं पप कॉइल्स रिमूवल
48. मक एण्ड डेब्रिस की लोडिंग एवं ढुलाई
49. लाईम डस्ट की ढुलाई
50. लौह एवं इस्पात स्कैप का संग्रहण
51. टनडिश स्कल का प्रक्रमण
52. सिंटर ग्रेड स्कैप की रेकवरी, प्रक्रमण एवं ढुलाई
53. बीओएफ स्लैग पिट क्लीनिंग
54. स्लज ढुलाई

55. आंतरिक उपभोग/बाह्य विक्रय हेतु मिल स्कैप का संग्रहण, प्रक्रमण एवं ढुलाई
56. सी.आई स्कैप/पीसीएम जैम/रनर्स का:-
- अ) विक्रय पर ग्राहकों के वाहनों पर संग्रहण, प्रक्रमण एवं लोडिंग  
 ब) एसएमएस स्कैप पिट में संग्रहण, प्रक्रमण, लोडिंग, ढुलाई एवं अनलोडिंग
57. विक्रय पर ग्राहकों के वाहन पर पीसीएम मक व फाईन्स का संग्रहण, प्रक्रमण एवं लोडिंग
58. स्लैग यार्ड से एसएमएस स्लैग की डिगिंग, लोडिंग, ढुलाई एवं स्कल ब्रेकर यार्ड में अनलोडिंग।
59. ईएएफ गर्म स्लैग की लोडिंग एवं ढुलाई
60. ईएएफ स्लैग(0—5 एमएम) की ग्राईडिंग
61. टनडिश, लैडल व लांडर स्कल का संग्रहण तथा ढुलाई, बालिंग के जरिए सफाई
62. 8 एमटी से अधिक टनडिश की सफाई व लोडिंग
63. टिप्पर/वैगनों पर ग्रेनुलेटेड बीएफ स्लैग की लोडिंग
64. संयंत्र के भीतर ग्रेनुलेटेड बीएफ स्लैग का रेलवे साईडिंग/स्लैग ड्रपिंग को लोडिंग व ढुलाई।
65. ड्राई पिट से अनग्रेनुलेटेड बीएफ स्लैग की हॉलिंग
66. बीएफ स्लैग पिट, कैस्ट हाउस, एलआरएस व पीसीएम से लौह स्कैप की हैंडलिंग व रेकवरी।

bʌɪ fjuːnuk fuokj .k i fdɪt k ,oa vflkxE; rk

निश्चित कालावधि में जन शिकायतों के निराकरण हेतु एफएसएनएल में त्रि-चरणीय परिवेदना निवारण प्रक्रिया प्रतिपादन किया गया है।

जन साधारण के सुगम उपयोग हेतु इकाइयों/निगमन कार्यालय के स्वागत कक्ष में शिकायत पेटियां रखी गई हैं। ऐसे प्राप्त जन शिकायतों को प्रत्येक शुक्रवार को इस कार्य हेतु नामांकित जन शिकायत अधिकारी की उपस्थिति में **f'kdk; r jftLVj** में प्रविष्ट किया जाता है।

**i fke pj.k** में एक ग्राहक/नागरिक को कोई शिकायत होने पर, इस कार्य हेतु नामांकित जन शिकायत अधिकारी से मुलाकात का उसे अवसर प्रदान किया जाता है, जो उसकी शिकायत को ध्यान से सुनकर, आवश्यकतानुसार जांच कर, शिकायत की सुनवाई के तीन दिनों के भीतर अपना मौखिक जवाब शिकायतकर्ता को प्रदान करता है।

**f}rh; pj.k** में, यदि शिकायतकर्ता प्रथम चरण में शिकायत अधिकारी के जवाब से संतुष्ट नहीं है, अथवा यदि उसे तीन कार्यदिवसों के भीतर कोई जवाब प्राप्त नहीं होता है, या जन शिकायत अधिकारी द्वारा प्रथम चरण में उसकी शिकायत का संतोषप्रद निराकरण नहीं किया जाता है, ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को इकाई में इकाई प्रमुख एवं निगमन कार्यालय में संचालन विभाग प्रमुख से मिलने का अवसर प्रदान किया जाता है, जो शिकायत को ध्यानपूर्वक सुनता है, संबंधित व्यक्ति से जानकारी हासिल करता है तथा शिकायत पर अपना निर्णय प्रदान करता है, अथवा शिकायतकर्ता को जवाब प्रेषित करता है।

**r`rh; pj.k** में, यदि ग्राहक/नागरिक द्वितीय चरण के परिणाम से संतुष्ट नहीं है, तो उसे निगमन कार्यालय में मुख्य महाप्रबंधक से मुलाकात करने का अवसर प्राप्त है, जो उसकी शिकायत को ध्यानपूर्वक सुनता है, उसकी विवेचना करता है एवं उसका निराकरण करता है।

यदि ग्राहक/नागरिक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरणों के परिणामों से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह **dः uः ds i cः funs kः dks** एक अपील पेश कर सकता है, जो उपरोक्त तीनों चरणों में की गई कार्यवाहियों का पुनर्विलोकन करता है, शिकायत की विवेचना करता है तथा अपील प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर संबंधित शिकायतकर्ता को अपने निर्णय से अवगत कराता है।

2. सतर्कता प्रकरणों से संबंधित शिकायतों के लिए कंपनी के मुख्य सतर्कता अधिकारी से निम्नलिखित पते पर संपर्क किया जा सकता है:-

संपर्क पता	मुख्य सतर्कता अधिकारी फेरो स्कैप निगम लिमिटेड, द्वारा: एमएसटीसी लिमिटेड, 225-सी, आचार्य जे.सी.बोस रोड, कोलकाता।
------------	---

दूरभाष/फैक्स नं. 033-22902390

**Q%ukxfj dk@xlgdk;a | s vi \$kk, a**

सहज सेवा निष्पादन हेतु ग्राहकों/नागरिकों से सहयोग/समन्वयन वांछित है।